



# भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

## साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 32

20 अक्टूबर, 2017

संख्या 42

### 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां \*

(₹ बिलियन)

| मद                                      | 2016       | 2017      |            | घट – बढ़ |           |
|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|
|                                         | 14 अक्टूबर | 6 अक्टूबर | 13 अक्टूबर | सप्ताह   | वर्ष      |
|                                         | 1          | 2         | 3          | 4        | 5         |
| 1 जारी नोट                              | 17,514.48  | 15,748.96 | 15,928.60  | 179.64   | -1,585.88 |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 17,514.36  | 15,748.78 | 15,928.44  | 179.65   | -1,585.92 |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 0.12       | 0.17      | 0.16       | -0.01    | 0.04      |
| 2 जमा राशियां                           |            |           |            |          |           |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 1.01       | 1.00      | 1.01       | 0.01     | 0.00      |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               | —          | 946.73    | 946.73     | 0.00     | 946.73    |
| 2.3 राज्य सरकारों                       | 0.42       | 0.42      | 0.42       | 0.00     | 0.00      |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 4,024.57   | 4,517.46  | 4,348.05   | -169.42  | 323.48    |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 35.50      | 36.06     | 35.31      | -0.74    | -0.19     |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 238.54     | 271.85    | 273.39     | 1.55     | 34.85     |
| 2.7 अन्य                                | 1,509.54   | 2,680.28  | 2,542.76   | -137.52  | 1,033.21  |
| 3 अन्य देयताएं                          | 9,210.84   | 8,934.64  | 8,929.31   | -5.33    | -281.53   |
| कुल देयताएं / आस्तियां                  | 32,534.91  | 33,137.40 | 33,005.58  | -131.82  | 470.67    |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 22,969.95  | 24,616.37 | 24,601.37  | -15.00   | 1,631.42  |
| 2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी          | 1,426.93   | 1,388.18  | 1,388.18   | 0.00     | -38.75    |
| 3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 7,434.38   | 6,909.30  | 6,805.97   | -103.33  | -628.41   |
| 4 ऋण और अग्रिम                          |            |           |            |          |           |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | —          | —         | —          | 0.00     | 0.00      |
| 4.2 राज्य सरकारों                       | 37.13      | 33.61     | 45.85      | 12.24    | 8.72      |
| 4.3 नाबार्ड                             | —          | —         | —          | 0.00     | 0.00      |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 441.14     | 71.30     | 41.99      | -29.31   | -399.15   |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | —          | —         | —          | 0.00     | 0.00      |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | —          | —         | —          | 0.00     | 0.00      |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | —          | —         | —          | 0.00     | 0.00      |
| 4.8 अन्य                                | 51.29      | 36.83     | 39.18      | 2.35     | -12.10    |
| 5 खरीदे और भुनाए गए बिल                 |            |           |            |          |           |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | —          | —         | —          | 0.00     | 0.00      |
| 5.2 खजाना                               | —          | —         | —          | 0.00     | 0.00      |
| 6 निवेश                                 | 23.20      | 33.70     | 33.70      | 0.00     | 10.50     |
| 7 अन्य आस्तियां                         | 150.89     | 48.11     | 49.33      | 1.22     | -101.56   |

\* डाटा अनंतिम है।

### 2. विदेशी मुद्रा भंडार

| मद                                        | 13 अक्टूबर, 2017 को |               | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |               |                          |               |          |               |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------|---------------|
|                                           |                     |               | सप्ताह                     |               | मार्च 2017 की समाप्ति पर |               | वर्ष     |               |
|                                           | ₹ बिलियन            | मिलि.अम. डॉलर | ₹ बिलियन                   | मिलि.अम. डॉलर | ₹ बिलियन                 | मिलि.अम. डॉलर | ₹ बिलियन | मिलि.अम. डॉलर |
|                                           | 1                   | 2             | 3                          | 4             | 5                        | 6             | 7        | 8             |
| 1 कुल भंडार                               | 25,994.8            | 400,296.8     | -14.1                      | 1,502.3       | 2,012.8                  | 30,342.1      | 1,618.1  | 34,157.1      |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 24,361.0            | 375,273.9     | -14.5                      | 1,478.5       | 1,911.6                  | 28,955.4      | 1,666.9  | 34,365.9      |
| 1.2 स्वर्ण                                | 1,388.2             | 21,240.5      | —                          | —             | 99.9                     | 1,371.5       | -38.7    | -165.8        |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                     | 97.6                | 1,503.6       | 0.1                        | 9.5           | 3.8                      | 57.1          | -0.6     | 34.7          |
| 1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति | 148.0               | 2,278.8       | 0.3                        | 14.3          | -2.5                     | -41.9         | -9.5     | -77.7         |

### 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकदी शेष

(राशि ₹ बिलियन में)

| 13 अक्टूबर 2017 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर)=<br>₹ 4415.39 बिलियन | 2017      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                        | 30 सितंबर | 1 अक्टूबर | 2 अक्टूबर | 3 अक्टूबर | 4 अक्टूबर | 5 अक्टूबर | 6 अक्टूबर | 7 अक्टूबर | 8 अक्टूबर | 9 अक्टूबर | 10 अक्टूबर | 11 अक्टूबर | 12 अक्टूबर | 13 अक्टूबर |
|                                                                                                                        | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11         | 12         | 13         | 14         |
|                                                                                                                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                                           | 4,534.1   | 4,534.1   | 4,534.1   | 4,611.2   | 4,538.5   | 4,506.6   | 4,517.5   | 4,294.2   | 4,294.2   | 4,297.4   | 4,385.6    | 4,373.4    | 4,423.3    | 4,348.1    |
| औसत दैनिक सीआरआर के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                                                        | 102.7     | 102.7     | 102.7     | 104.4     | 102.8     | 102.1     | 102.3     | 97.3      | 97.3      | 97.3      | 99.3       | 99.1       | 100.2      | 98.5       |

## 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

| मद                                             | 29 सितंबर, 2017<br>को बकाया | निम्नलिखित अवधि में घटबढ़ |                      |                |                |                |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                |                             | पखवाड़ा                   | वित्त वर्ष में अब तक |                | वर्ष-दर-वर्ष   |                |
|                                                |                             |                           | 2016-2017            | 2017-2018      | 2016           | 2017           |
|                                                | 1                           | 2                         | 3                    | 4              | 5              | 6              |
| <b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>      |                             |                           |                      |                |                |                |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां        | 1,520.8                     | 25.7                      | 63.8                 | -177.7         | 250.1          | -65.1          |
| 1.2 बैंकों से उधार                             | 556.5                       | -88.2                     | -78.0                | -17.0          | 37.0           | -9.4           |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 93.9                        | 7.3                       | 1.2                  | 35.3           | 27.6           | 8.5            |
| <b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>                 |                             |                           |                      |                |                |                |
| 2.1 कुल जमाराशियां                             | 109,677.3                   | 2,604.2                   | 7,663.6              | 2,100.8        | 9,800.7        | 8,740.9        |
| 2.1.1 वृद्धि (प्रतिशत)                         |                             | 2.4                       | 8.2                  | 2.0            | 10.8           | 8.7            |
| 2.1.1.1 मांग                                   | 12,457.3                    | 1,208.3                   | 1,537.9              | -357.1         | 2,025.6        | 2,029.4        |
| 2.1.2 मीयादी                                   | 97,220.0                    | 1,395.9                   | 6,125.7              | 2,457.9        | 7,775.1        | 6,711.4        |
| 2.2 उधारियां                                   | 3,090.7                     | 158.7                     | -41.2                | -72.5          | 579.8          | 142.2          |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 4,863.5                     | -743.2                    | -458.9               | 226.3          | 335.3          | 282.0          |
| <b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>                  | <b>405.3</b>                | <b>238.6</b>              | <b>-1,981.0</b>      | <b>187.2</b>   | <b>-103.3</b>  | <b>61.6</b>    |
| <b>4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि</b> | <b>5,358.0</b>              | <b>40.4</b>               | <b>294.8</b>         | <b>-343.3</b>  | <b>325.7</b>   | <b>614.4</b>   |
| 4.1 उपलब्ध नकदी                                | 824.0                       | 132.5                     | 45.1                 | 210.4          | 68.8           | 204.4          |
| 4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि               | 4,534.1                     | -92.1                     | 249.6                | -553.7         | 256.9          | 410.0          |
| <b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>       |                             |                           |                      |                |                |                |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष                     | 1,962.7                     | 43.5                      | 69.5                 | 262.6          | 9.0            | 276.4          |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि         | 241.6                       | -97.5                     | -51.2                | 164.6          | 113.4          | -56.1          |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                           | 257.9                       | -30.3                     | 45.1                 | -121.6         | 57.6           | -47.7          |
| 5.4 अन्य आस्तियां                              | 198.0                       | -5.3                      | -60.7                | -82.7          | -74.9          | -119.1         |
| <b>6 निवेश</b>                                 | <b>33,379.7</b>             | <b>31.7</b>               | <b>2,313.2</b>       | <b>3,070.1</b> | <b>1,732.0</b> | <b>4,811.4</b> |
| 6.1 वृद्धि (प्रतिशत)                           |                             | 0.1                       | 8.8                  | 10.1           | 6.5            | 16.8           |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में                    | 33,368.2                    | 37.2                      | 2,314.6              | 3,070.7        | 1,740.3        | 4,814.2        |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में             | 11.5                        | -5.4                      | -1.4                 | -0.6           | -8.4           | -2.8           |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                               | <b>80,088.3</b>             | <b>2,274.0</b>            | <b>2,452.5</b>       | <b>1,673.6</b> | <b>6,852.6</b> | <b>5,139.6</b> |
| 7.1 वृद्धि (प्रतिशत)                           |                             | 2.9                       | 3.4                  | 2.1            | 10.1           | 6.9            |
| 7 क.1 खाद्य ऋण                                 | 463.7                       | -70.1                     | -197.9               | -75.6          | -19.9          | -390.9         |
| 7 क.2 खाद्येतर ऋण                              | 79,624.6                    | 2,344.0                   | 2,650.4              | 1,749.2        | 6,872.5        | 5,530.5        |
| 7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट                | 77,908.1                    | 2,091.9                   | 2,531.7              | 1,759.7        | 7,041.3        | 5,039.2        |
| 7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए                        | 200.5                       | 19.4                      | -32.3                | -45.4          | -127.9         | -24.3          |
| 7 ख.3 भुनाए गए                                 | 1,325.0                     | 93.1                      | -59.0                | -40.9          | -25.7          | 95.3           |
| 7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए                      | 250.1                       | 40.5                      | 30.8                 | 3.6            | 12.6           | 14.9           |
| 7 ख.5 भुनाए गए                                 | 404.5                       | 29.2                      | -18.7                | -3.4           | -47.7          | 14.5           |

## 5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

| मद/समाप्त सप्ताह                                          | 2016       | 2017      |           |           |           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                                           | 14 अक्टूबर | 15 सितंबर | 22 सितंबर | 29 सितंबर | 6 अक्टूबर | 13 अक्टूबर |
|                                                           | 1          | 2         | 3         | 4         | 5         | 6          |
| <b>अनुपात</b>                                             |            |           |           |           |           |            |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                                  | 4.00       | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00      | 4.00       |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                                    | 20.75      | 20.00     | 20.00     | 20.00     | 20.00     | 20.00      |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                       | 4.71       | 4.97      | ..        | 4.89      | ..        | ..         |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                         | 73.89      | 72.67     | ..        | 73.02     | ..        | ..         |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                               | 17.69      | **        | ..        | 79.67     | ..        | ..         |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                      | 28.98      | 31.15     | ..        | 30.43     | ..        | ..         |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                            | 41.15      | *         | ..        | 146.14    | ..        | ..         |
| <b>दरें</b>                                               |            |           |           |           |           |            |
| नीतिगत रिपो दर                                            | 6.25       | 6.00      | 6.00      | 6.00      | 6.00      | 6.00       |
| रिवर्स रिपो दर                                            | 5.75       | 5.75      | 5.75      | 5.75      | 5.75      | 5.75       |
| मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                        | 6.75       | 6.25      | 6.25      | 6.25      | 6.25      | 6.25       |
| बैंक दर                                                   | 6.75       | 6.25      | 6.25      | 6.25      | 6.25      | 6.25       |
| आधार दर                                                   | 9.30/9.65  | 9.00/9.55 | 9.00/9.55 | 9.00/9.55 | 8.95/9.55 | 8.95/9.45  |
| एमसीएलआर (एक दिवसीय)                                      | 8.80/9.10  | 7.75/8.10 | 7.75/8.10 | 7.75/8.10 | 7.75/8.10 | 7.70/8.05  |
| सावधी जमा दर > 1 वर्ष                                     | 7.00/7.30  | 6.25/6.75 | 6.25/6.75 | 6.25/6.75 | 6.25/6.75 | 6.25/6.75  |
| बचत जमाराशि दर                                            | 4.00       | 3.50/4.00 | 3.50/4.00 | 3.50/4.00 | 3.50/4.00 | 3.50/4.00  |
| मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत)                             | 6.21       | 5.89      | 5.91      | 5.88      | 5.84      | 5.86       |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                         | 6.36       | 6.11      | 6.11      | 6.11      | 6.07      | 6.07       |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                        | ..         | ..        | 6.22      | ..        | 6.18      | 6.18       |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                        | 6.46       | 6.25      | ..        | 6.24      | 6.20      | 6.22       |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति सम आय (एफआईएमएमडीए)            | 6.78       | 6.72      | 6.79      | 6.83      | 6.92      | 6.91       |
| <b>भारिबैं संदर्भ दर और फॉरवर्ड प्रीमिया</b>              |            |           |           |           |           |            |
| भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 66.85      | 64.08     | 64.96     | 65.36     | 65.23     | 64.93      |
| भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 73.69      | 76.40     | 77.76     | 77.06     | 76.26     | 76.88      |
| अमरीकी डॉलर का फॉरवर्ड प्रीमिया 1-माह                     | 6.28       | 4.87      | 4.43      | 4.96      | 4.78      | 4.62       |
| 3-माह                                                     | 5.83       | 4.24      | 4.19      | 4.28      | 4.42      | 4.31       |
| 6-माह                                                     | 5.64       | 4.24      | 4.13      | 4.19      | 4.35      | 4.33       |

\* हर नकारात्मक हैं ।

\*\* हर और अंश नकारात्मक हैं ।

## 6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                 | निम्न को बकाया |           | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |      |                      |      |           |      |              |      |          |      |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------------|------|----------------------|------|-----------|------|--------------|------|----------|------|
|                                                    | 2017           |           | पखवाड़ा                    |      | वित्त वर्ष में अब तक |      |           |      | वर्ष-दर-वर्ष |      |          |      |
|                                                    |                |           |                            |      | 2016-2017            |      | 2017-2018 |      | 2016         |      | 2017     |      |
|                                                    | 31 मार्च       | 29 सितंबर | राशि                       | %    | राशि                 | %    | राशि      | %    | राशि         | %    | राशि     | %    |
|                                                    | 1              | 2         | 3                          | 4    | 5                    | 6    | 7         | 8    | 9            | 10   | 11       | 12   |
| एम <sub>3</sub>                                    | 128,443.9      | 132,337.8 | 2,590.2                    | 2.0  | 8,723.8              | 7.5  | 3,893.9   | 3.0  | 13,113.1     | 11.7 | 7,437.9  | 6.0  |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)                            |                |           |                            |      |                      |      |           |      |              |      |          |      |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 12,637.1       | 14,963.0  | -79.5                      | -0.5 | 592.2                | 3.7  | 2,325.9   | 18.4 | 2,412.7      | 17.0 | -1,601.8 | -9.7 |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि                     | 14,106.3       | 13,591.6  | 1,207.8                    | 9.8  | 1,636.4              | 16.5 | -514.7    | -3.6 | 2,165.3      | 23.1 | 2,056.9  | 17.8 |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि                   | 101,489.5      | 103,526.4 | 1,390.6                    | 1.4  | 6,463.7              | 7.2  | 2,036.8   | 2.0  | 8,511.5      | 9.7  | 6,911.9  | 7.2  |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि             | 210.9          | 256.9     | 71.2                       | 38.3 | 31.5                 | 20.4 | 46.0      | 21.8 | 23.7         | 14.6 | 70.9     | 38.1 |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                      |                |           |                            |      |                      |      |           |      |              |      |          |      |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 38,690.9       | 40,896.2  | -132.7                     | -0.3 | 5,134.7              | 15.9 | 2,205.3   | 5.7  | 4,125.9      | 12.4 | 3,376.7  | 9.0  |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                 | 6,208.1        | 5,428.9   | -165.5                     |      | 2,746.5              |      | -779.2    |      | 2,076.1      |      | -1,567.6 |      |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 32,482.8       | 35,467.3  | 32.9                       | 0.1  | 2,388.1              | 8.5  | 2,984.4   | 9.2  | 2,049.8      | 7.2  | 4,944.2  | 16.2 |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 84,514.3       | 85,772.3  | 2,282.9                    | 2.7  | 2,577.3              | 3.3  | 1,258.0   | 1.5  | 7,222.7      | 9.8  | 5,164.4  | 6.4  |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                 | 72.9           | 74.4      | -1.3                       |      | -134.0               |      | 1.5       |      | 1.3          |      | 7.5      |      |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 84,441.4       | 85,698.0  | 2,284.1                    | 2.7  | 2,711.2              | 3.5  | 1,256.6   | 1.5  | 7,221.3      | 9.8  | 5,156.9  | 6.4  |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 25,582.3       | 27,212.8  | 299.5                      | 1.1  | 1,249.2              | 4.9  | 1,630.5   | 6.4  | 2,443.6      | 10.1 | 626.4    | 2.4  |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 250.9          | 253.1     | —                          | —    | 13.7                 | 6.2  | 2.3       | 0.9  | 26.2         | 12.7 | 20.4     | 8.8  |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं       | 20,594.6       | 21,796.6  | -140.5                     | -0.6 | 251.0                | 1.3  | 1,202.1   | 5.8  | 705.3        | 3.6  | 1,750.0  | 8.7  |
| 2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं        | 8,333.5        | 9,055.4   | 340.7                      | 3.9  | -254.8               | -2.7 | 721.9     | 8.7  | 410.2        | 4.6  | -231.6   | -2.5 |

## 7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                               | निम्न को बकाया |            | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |       |                      |       |         |       |              |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------|-------|----------------------|-------|---------|-------|--------------|------|----------|------|
|                                                                  | 2017           |            | सप्ताह                     |       | वित्त वर्ष में अब तक |       |         |       | वर्ष-दर-वर्ष |      |          |      |
|                                                                  |                |            |                            |       | 2016-17              |       | 2017-18 |       | 2016         |      | 2017     |      |
|                                                                  | 31 मार्च       | 13 अक्टूबर | राशि                       | %     | राशि                 | %     | राशि    | %     | राशि         | %    | राशि     | %    |
|                                                                  | 1              | 2          | 3                          | 4     | 5                    | 6     | 7       | 8     | 9            | 10   | 11       | 12   |
| आरक्षित मुद्रा                                                   | 19,004.8       | 21,064.9   | -19.5                      | -0.1  | 419.0                | 1.9   | 2,060.1 | 10.8  | 2,948.3      | 15.3 | -1,161.5 | -5.2 |
| 1 घटक (1.1+1.2+1.3)                                              |                |            |                            |       |                      |       |         |       |              |      |          |      |
| 1.1 संचलन में करेंसी                                             | 13,352.7       | 16,183.3   | 179.7                      | 1.1   | 1,112.5              | 6.7   | 2,830.6 | 21.2  | 2,635.7      | 17.4 | -1,563.8 | -8.8 |
| 1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमाराशि                          | 5,441.3        | 4,656.8    | -168.6                     | -3.5  | -719.6               | -14.3 | -784.5  | -14.4 | 278.7        | 6.9  | 358.1    | 8.3  |
| 1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि                           | 210.9          | 224.9      | -30.5                      | -11.9 | 26.2                 | 17.0  | 14.0    | 6.6   | 33.9         | 23.1 | 44.2     | 24.5 |
| 2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)                                    |                |            |                            |       |                      |       |         |       |              |      |          |      |
| 2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 6,208.1        | 5,425.6    | -420.7                     |       | 2,297.0              |       | -782.5  |       | 1,928.7      |      | -1,121.4 |      |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 6,195.9        | 5,380.1    | -432.9                     |       | 2,264.6              |       | -815.8  |       | 1,910.3      |      | -1,130.1 |      |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | -3,092.8       | -1,664.6   | 409.4                      |       | -2,884.8             |       | 1,428.2 |       | -256.0       |      | -1,825.1 |      |
| 2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे                        | -3,165.7       | -1,737.2   | 407.0                      |       | -2,758.3             |       | 1,428.4 |       | -266.9       |      | -1,823.5 |      |
| 2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 23,972.1       | 25,987.6   | -15.0                      | -0.1  | 560.1                | 2.3   | 2,015.5 | 8.4   | 1,497.1      | 6.5  | 1,592.8  | 6.5  |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                          | 250.9          | 254.8      |                            |       | 13.7                 | 6.2   | 4.0     | 1.6   | 26.2         | 12.7 | 22.1     | 9.5  |
| 2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता                          | 8,333.5        | 8,938.5    | -6.8                       | -0.1  | -433.1               | -4.5  | 605.1   | 7.3   | 247.8        | 2.8  | -170.1   | -1.9 |

## 8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ बिलियन)

| दिनांक          | चलनिधि समायोजन सुविधा |             |                     |                            | एमएसएफ | स्थायी<br>चलनिधि<br>सुविधा | बाजार<br>स्थिरीकरण<br>योजना | ओएमओ<br>(एकमुश्त) |      | निवल अंतर्वेशन<br>(+) / अवशोषण (-)<br>(1+3+5+6+9-2-4-7-8) |
|-----------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------|
|                 | रिपो                  | रिवर्स रिपो | परिवर्तनशील रिपो दर | परिवर्तनशील रिवर्स रिपो दर |        |                            |                             | विक्रय            | क्रय |                                                           |
|                 | 1                     | 2           | 3                   | 4                          | 5      | 6                          | 7                           | 8                 | 9    | 10                                                        |
| 9 अक्टूबर 2017  | 187.64                | 56.65       | —                   | —                          | 32.70  | —                          | —                           | —                 | —    | 163.69                                                    |
| 10 अक्टूबर 2017 | 43.07                 | 169.30      | 4.75                | 139.25                     | —      | —                          | —                           | —                 | —    | -260.73                                                   |
| 11 अक्टूबर 2017 | 21.30                 | 108.44      | —                   | 295.12                     | —      | —                          | —                           | —                 | —    | -382.26                                                   |
| 12 अक्टूबर 2017 | 22.70                 | 274.79      | —                   | 283.65                     | —      | —                          | —                           | —                 | —    | -535.74                                                   |
| 13 अक्टूबर 2017 | 28.40                 | 187.44      | 13.15               | 190.98                     | 2.79   | -0.90                      | —                           | 100.00            | —    | -434.98                                                   |

## 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                           | 2016  |        | 2017  |        | निम्नलिखित अवधि में प्रतिशत घट-बढ़ |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|------------------------------------|-------|------|
|                                                              | अगस्त | सितंबर | अगस्त | सितंबर | माह                                | मार्च | वर्ष |
|                                                              | 1     | 2      | 3     | 4      | 5                                  | 6     | 7    |
| 1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)                          | 131.1 | 130.9  | 135.4 | 135.2  | - 0.1                              | 3.3   | 3.3  |
| 1.1 ग्रामीण                                                  | 133.5 | 133.4  | 137.8 | 137.6  | - 0.1                              | 3.6   | 3.1  |
| 1.2 शहरी                                                     | 128.4 | 128.0  | 132.7 | 132.4  | - 0.2                              | 2.9   | 3.4  |
| 2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) | 278.0 | 277.0  | 285.0 | ..     | ..                                 | ..    | ..   |
| 3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)                            | 111.2 | 111.4  | 114.8 | 114.3  | - 0.4                              | 1.0   | 2.6  |
| 3.1 प्राथमिक वस्तुएं                                         | 131.4 | 130.6  | 134.9 | 130.8  | - 3.0                              | 2.9   | 0.2  |
| 3.2 ईंधन और बिजली                                            | 81.1  | 83.2   | 89.2  | 90.7   | 1.7                                | - 3.1 | 9.0  |
| 3.3 विनिर्मित उत्पाद                                         | 110.2 | 110.4  | 112.9 | 113.4  | 0.4                                | 1.0   | 2.7  |

## 10. जमा प्रमाणपत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 1                       | 2                     |
| 15 सितंबर 2017 | 824.1                    | 117.7                   | 6.12 - 6.53           |
| 29 सितंबर 2017 | 1,144.5                  | 169.2                   | 6.09 - 6.68           |

## 11. वाणिज्यिक पत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 1                       | 2                     |
| 15 सितंबर 2017 | 4,423.9                  | 1,250.7                 | 5.59 - 11.80          |
| 30 सितंबर 2017 | 3,932.1                  | 1,162.9                 | 5.89 - 11.00          |

## 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ बिलियन)

| मद                       | समाप्त सप्ताह   |                |                 |
|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                          | 14 अक्टूबर 2016 | 6 अक्टूबर 2017 | 13 अक्टूबर 2017 |
|                          | 1               | 2              | 3               |
| 1 मांग मुद्रा            | 228.3           | 195.6          | 239.5           |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा     | 185.7           | 95.9           | 8.3             |
| 3 सीबीएलओ                | 1,882.8         | 2,519.5        | 1,936.6         |
| 4 बाजार रिपो             | 2,099.9         | 1,867.0        | 1,942.4         |
| 5 कॉरपोरेट बांड में रिपो | 4.0             | 8.0            | 3.7             |

## 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ बिलियन)

| 13 अक्टूबर 2017 | प्रमुख धारक |                   |               | कुल     |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|---------|
|                 | बैंक        | प्राथमिक व्यापारी | राज्य सरकारें |         |
|                 | 1           | 2                 | 3             |         |
| 91-दिवसीय       | 373.9       | 204.6             | 943.9         | 2,305.2 |
| 182-दिवसीय      | 364.0       | 256.5             | 120.7         | 931.4   |
| 364-दिवसीय      | 411.3       | 603.0             | 29.7          | 1,404.8 |
| सीएमवी          | —           | —                 | —             | —       |

## 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ली गई बाजार उधारियां

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन में)

| मद               | जुटाई गई सकल राशि               |                                 |         | जुटाई गई निवल राशि              |                                 |         |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
|                  | 2017-18<br>(13 अक्टूबर 2017 तक) | 2016-17<br>(14 अक्टूबर 2016 तक) | 2016-17 | 2017-18<br>(13 अक्टूबर 2017 तक) | 2016-17<br>(14 अक्टूबर 2016 तक) | 2016-17 |
|                  | 1                               | 2                               | 3       | 4                               | 5                               | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 3,860.0                         | 3,700.0                         | 5,820.0 | 2,633.0                         | 2,631.6                         | 4,082.0 |
| 2. राज्य सरकारें | 1,899.1                         | 1,519.3                         | 3,819.8 | 1,661.0                         | 1,392.4                         | 3,426.5 |

डब्ल्यूएसएस के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां डब्ल्यूएसएस हस्तपुस्तिका ([www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762](http://www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762)) में उपलब्ध है। समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री सुनिल कुमार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।